

2203

B.Com. (Part-II) Examination, 2019

COST ACCOUNTING

[Paper - Third]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 50

Note : Attempt questions from all the sections.

सभी खण्डों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Section-A / खण्ड-अ

(Short Answer Type Questions)

(लघुउत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any ten questions. Each question carries 2 marks. [2x10=20]

नोट : किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

1/ What are the objectives of Cost Accounts ?

लागत लेखों के क्या उद्देश्य हैं ?

2/ What do you understand by 'Elements of Costs'?

लागत के मूल तत्वों से आप क्या समझते हैं ?

2203/4500

(1)

[P.T.O.]

3. What are the objectives of Inventory Control ?

सामग्री नियन्त्रण के उद्देश्य क्या हैं ?

4/ Define Bin Card.

बिन कार्ड की परिभाषा दीजिए।

5 Write a short note on Maximum level of materials.

सामग्री की अधिकतम सीमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

6/ How is Labour Turnover measured ?

श्रम निकासी को कैसे मापा जाता है ?

7. What do you mean by Idle Time of workers ?

श्रमिकों के कार्यहीन काल से आप क्या समझते हैं ?

8 What do you mean by 'Incentive Plan of Labourers' Remuneration ?

श्रमिकों को पारिश्रमिक में 'प्रेरणात्मक योजना' से आप क्या समझते हैं ?

9 Explain the wages at Piece Rate

कार्य के आधार पर मजदूरी का वर्णन कीजिए।

10/ What is the meaning of overhead ?

अप्रत्यक्ष व्ययों का क्या अर्थ है ?

2203/4500

(2)

11. Write the meaning of 'Prime Cost' 'Works Cost'. Office Cost and Total Cost

मूल लागत, कारखाना लागत, कार्यालय लागत और कुल लागत का आशय लिखिए।

12. What is a contract account ?

टेका खाता क्या है ?

13. What are Process Accounts ?

विधि खाते क्या हैं ?

14. Describe the causes of difference between costing profits and financial profits.

लागत लाभों और वित्तीय लाभों के अन्तर के कारणों का वर्णन कीजिए।

15. What is Profit-Volume Ratio ?

लाभ-मात्रा अनुपात क्या है ?

Section-B / खण्ड-ब

(Long Answer Type Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any two questions. Each question carries 15 marks. (15×2=30)

2203/4500

(3)

[P.T.O.]

नोट : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

1. What do you understand by Process Costing ? Describe its general principles and salient features

प्रक्रिया लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं ? इसके सामान्य सिद्धान्त तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

2. Define Marginal Costing. What are its advantages ? How does it help the management engaged in production and sales ? Explain. <http://www.upadda.com>

सीमान्त लागत की परिभाषा दीजिए। इसके लाभ क्या हैं ? उत्पादन एवं बिक्री में लगे प्रबन्धकों को यह कैसे सहायता करता है? समझाइये।

3. In respect of a factory the following figures have been obtained for the year 1994

	Rs
Cost of Materials	6,00,000
Wages for labour	5,00,000
Factory overheads	3,00,000
Administration Charges	3,36,000
Selling Charges	224,000
Distribution Charges	1,40,000
Profit	4,20,000

A work order has been executed in 1995 and the following

2203/4500

(4)

expenses have been incurred :

	Rs.
Materials	8,000
Wages for labour	5,000

Assuming that in 1995 the rate for factory overhead has gone up by 20 %, Distribution charges have gone down by 10% and selling and administration charges each have gone up by 12½%, at what price the product be sold, so as to earn the same profit as on the selling price in 1994. Factory overhead is based on direct labour and Administration, selling and distribution averheads are based on Factory cost ?

एक कारखाने के निम्न आंकड़े 1994 वर्ष के प्राप्त किये गये हैं- सामग्री 6,00,000 रु०, मजदूरी 5,00,000 रु०, कारखान उपरिव्यय 3,00,000 रु०, प्रशासन उपरिव्यय 3,36,000 रु०, बिक्री व्यय 2,24,000 रु०, वितरण व्यय 1,40,000 रु० तथा लाभ 4,20,000 रु०, 1995 में एक कार्य आदेश पूरा किया गया और निम्नलिखित व्यय हुए :-

सामग्री 8000 रु०, मजदूरी 5000 रु०, यह मानते हुए कि 1995 में कारखाना उपरिव्यय की दर 20% बढ़ गई है, वितरण व्यय 10% कम हो गये हैं तथा बिक्री व प्रशासन व्यय प्रत्येक 12½% से बढ़ गया है, उत्पाद किस मूल्य पर बेचा जाये ताकि वही लाभ

[P.T.O.]

हो सके जो 1994 के विक्रय मूल्य पर हुआ था ?

कारखाना उपरिव्यय प्रत्यक्ष श्रम पर तथा प्रशासन, बिक्री व वितरण उपरिव्यय कारखाना लागत पर आधारित हैं।

4. A road contractor Prakash took a contract for the construction of a certain road on 1st January, 1995. The contract price was agreed at Rs. 20,00,000. The contractor had made the following expenditure during the year :-

Materials Rs. 1,25,000. Labour Rs. 75,000. Plant Rs. 2,00,000. Direct Expenses Rs. 50,000. Total Rs. 4,50,000
Plant at site on 31.12.1995 Rs. 1,50,000. Material at site on 31.12.1995, Rs 25,000. Materials returned Rs. 10,000, Work certified Rs. 70,000. cash received Rs.7,00,000, uncertified work Rs 40,000. Prepare Contract Account and Work in Progress Account

एक सड़क बनाने वाले ठेकेदार प्रकाश ने 1995 को एक सड़क बनाने का ठेका लिया। ठेका मूल्य 20,00,000 रु० था तथा ठेकेदार ने वर्ष में निम्न व्यय किये :-

सामग्री 1,25,000 रु०, श्रम 75,000 रु०, संयन्त्र 2,00,000 रु०. प्रत्यक्ष व्यय 50,000 रु० = कुल 4,50,000 रु०। वर्ष के अन्त में निम्न सूचनाये थी : संयन्त्र 31.12.95 को कार्य स्थल पर 1,50,000 रु०, सामग्री 31.12.95 को कार्य स्थल पर 25,000

http://www.upadda.com

http://www.upadda.com

http://www.upadda.com

http://www.upadda.com

रु०, सामग्री लौटाई 10,000 रु०, कार्य प्रमाणित 70,000 रु०,
रोकड़ प्राप्त की 7,00,000 रु०, अप्रमाणित कार्य 40,000 रु०।

ठेका खाता एवं चालू कार्य खाता बनाइये।

----- x -----

<http://www.upadda.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से